

।।सराहनीय कार्य।।

जनपद बस्ती

दिनांक 29.09.2021

थाना पुरानी बस्ती पुलिस व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में चैन स्नेचिंग, लुट व चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को अवैध तमंचा व लुट का सामान खरीदने वाले एक व्यापारी को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर श्री शक्ति सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पुरानी बस्ती श्री बृजेन्द्र पटेल व प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक श्री विकास यादव की संयुक्त टीम द्वारा लुट करने वाले दो अभियुक्तों को स्टेशन रोड हीरो होण्डा एजेन्सी के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 व लुट का सामान खरीदने वाले व्यापारी को उसके दुकान मंगल बाजार से चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर थाना पुरानी बस्ती पर मु0अ0सं0 277/2021 धारा 41,411 IPC व मु0अ0सं0- 278/2021 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. चन्दन चौबे पुत्र स्व0 राकेश कुमार चौबे उम्र 23 वर्ष निवासी मेहतर टोला मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
2. राजन सिंह पुत्र स्व0सूर्य नरायन सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी सिंधी मिल कालोनी थाना कोतवाली जनपद देवरिया , हा0मु0 छेदी पंडित का मकान निवासी पंडित टोला मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
3. विरेन्द्र सोनी पुत्र स्व0 काली प्रसाद सोनी निवासी मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

1. 1 अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूश,
2. पीली धातु का एक लाकेट, 02 अदद विछुआ सफेद धातु व 02 अदद विछुआ सफेद धातु।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग बेरोजगार हैं अपने शौक के लिये कभी-कभी हम दोनों लोग मिलकर चोरी लूट करके अपना शौक पूरा करते हैं। मैं और राजन दोस्त हैं। हम दोनों लोग दिनांक 31.08.2021 को दोपहर के समय जिला अस्पताल में इमरजेन्सी वार्ड के बगल में खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ कर गाड़ी में अन्दर रखा पर्स चुरा लिए थे जिसमें 8000 रुपये नगद व चार चाँदी का बिछुआ था। हम दोनों लोग चोरी के रुपये को आपस में आधा-आधा बाँट लिये थे व चार चाँदी की बिछुआ में से दो राजन ले लिया था तथा दो चाँदी की बिछुआ को मैं लिया था। जिसमें से प्राप्त पैसा हम दोनों लोग सब खा पीकर अपने शौक में खत्म कर दिये हैं। चोरी वाला बिछुआ को बेचने के लिए आज हम लोग जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिए, बरामद बिछुआ के सम्बन्ध में थाना कोतवाली से जानकारी ली गई तो ज्ञात हुआ कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में दिनांक 31.08.2021 को डा० शिवांगी गुप्ता द्वारा मु०अ०सं० 290/2021 धारा 379/427 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया है। इसके बाद भी हम दोनों लोग दिनांक 18.09.2021 को शाम को लगभग छः बजे गाँधी नगर पक्के से एक महिला के गले से मंगलसूत्र खींच कर भाग गये थे जिसमें सोने का लाकेट था तथा माला मोती वाला था। माला को तोड़कर मोती को नाले में फेक दिये थे और लाकेट को मंगल बाजार में विरेन्द्र सोनार को 4-5 दिन पहले ही दिये हैं। अभियुक्तों के निशानदेही पर मंगल बाजार स्थित सोनार के दुकान विरेन्द्र सोनी पुत्र स्व० काली प्रसाद सोनी निवासी मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती को गिरफ्तार किया गया। विरेन्द्र सोनी से अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दिये गये सोने के लाकेट के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो विरेन्द्र सोनी द्वारा बताया गया कि राजन व चन्दन मेरी दुकान पर 4 या 5 दिन पहले सोने का लाकेट लाकर दिये थे, जिसको मैं लेकर छः हजार रुपये राजन के हाथ में दिया था। विरेन्द्र सोनी अपने आलमारी से एक पीली धातु का लाकेट निकाल कर दिया जिसको देखकर पकड़े गये दोनों व्यक्ति बता रहे हैं कि साहब इसी लाकेट को हम दोनों लोग पक्के बाजार से महिला के गले से छिन कर लाये थे और विरेन्द्र सोनार को दिये थे इस लाकेट को हमलोग अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। लाकेट के लूटने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद बस्ती से जानकारी ली गयी तो ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली जनपद बस्ती में दिनांक 19.09.2021 को लाकेट लूटने के सम्बन्ध में श्रीमती सोनी पत्नी सूरज निवासी ग्राम मेहनौना थाना लालगंज जिला बस्ती हा० पता माली टोला गाँधी नगर थाना कोतवाली जनपद के द्वारा मु०अ०सं० 325/2021 धारा 392/323 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक पुरानी बस्ती ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल जनपद बस्ती।
2. प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक श्री विकास यादव जनपद बस्ती।
3. उ०नि० जितेन्द्र सिंह थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
4. हे०का० मनोज राय , हे० का० मनिन्द्र प्रताप चन्द्र ,का० रवि प्रताप सिंह, का० रविशंकर शाह स्वाट टीम जनपद बस्ती।
5. हे०का०ज्ञान प्रताप सिंह, का० राहुल शुक्ला , का० साजिद जमाल थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

